



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941

No. 505]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2019

सा.का. नि. 621(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"द्वितीय अनुसूची

(धारा 9 देखिए)

खनिजों के संबंध में स्वामित्व की दरें

क्रम सं.	श्रेणी के साथ खनिज का नाम	प्रति टन रु. में (जहाँ बोली लगाई गई खानों के लिए लागू हो)	(बोली लगाई गई खानों के लिए) अन्यथा कथित के सिवाय औसत विक्रय कीमत के प्रतिशत में मूल्यानुसार	प्रति टन रुपए में (जहाँ बोली के बिना आबंटित खानों के लिए लागू है)	(बोली के बिना आबंटित खानों के लिए) अन्यथा कथित के सिवाय औसत विक्रय कीमत के प्रतिशत में मूल्यानुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ऐपाटाइट और राक फास्फेट (i) ऐपाटाइट (ii) राक फास्फेट (क) P ₂ O ₅ 25% से उपर		4.5% 11.5% 5.5%		5% 12.5% 6%

	(ख) P2O5 25% तक				
2	एस्वेस्टास (क) क्रिसोलाइट (ख) एम्फीबोल	786/-रुपए प्रति टन	13.5%	880/- रुपए प्रति टन	15%
3	बाक्साइट (i) एलुमिना और एलुमिनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग के लिए भेजा गया बाक्साइट (ii) बाक्साइट से भिन्न एलुमिना और अलुमिनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग के लिए भेजा गया		अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम एलुमिनियम धातु कीमत का 0.54% 22.5%		अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम एलुमिनियम धातु कीमत का 0.60% 25%
4	भूरा इलमेनाइट (ल्यूकोजीन)) इलमेनाईट, रुटाइल और जिरकान		2.0%		2.0%
5	कैडमियम		13.5%		15%
6	क्रोमाइट		13.5%		15%
7	कोलम्बाइट टेन्टेलाइट		9.0%		10%
8	तांबा		अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम उत्पादित तांबा धातु कीमत का 4.13%		अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम उत्पादित तांबा धातु कीमत का 4.62%
9	हीरा (क) रत्न का प्रकार (ख) औद्योगिक प्रकार		मूल्यानुसार आधार पर औसत विक्रय कीमत का 10.5% o मूल्यानुसार आधार पर औसत विक्रय कीमत का 10.5%		मूल्यानुसार आधार पर औसत विक्रय कीमत का 11.5% मूल्यानुसार आधार पर औसत विक्रय कीमत का 11.5%
10	फ्लुओरस्पायर (फ्लुओरस्पायर के नाम से भी ज्ञात)		7.5%		8%
11	गारनेट (क) अपघर्षित (ख) रतन		4% 9.0%		4% 10%
12	स्वर्ण (ख) प्राथमिक		उत्पादित अयस्क में स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्केट कीमत (सामान्यतः लंदन कीमत के रूप में निर्दिष्ट) का 3.58 %		उत्पादित अयस्क में स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्केट कीमत (सामान्यतः लंदन कीमत के रूप में निर्दिष्ट) का 4%

	(ख) सहउत्पाद स्वर्ण		उत्पादित अयस्क में स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्केट कीमत (सामान्यतः लंदन कीमत के रूप में निर्दिष्ट का 2.95%		उत्पादित अयस्क में स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्केट कीमत (सामान्यतः लंदन कीमत के रूप में निर्दिष्ट का 3.3%
13	ग्रेफाइट (क) 80% या अधिक नियत कार्बन के साथ (ख) 40% या अधिक नियत कार्बन के साथ परंतु 80% से कम नियत कार्बन (ग) 20% या अधिक नियत कार्बन के साथ परंतु से 40% कम नियत कार्बन (घ) 20% से कम नियत कार्बन	Rs. 201/- प्रति टन Rs. 134/- प्रति टन Rs. 59/- प्रति टन Rs. 23/- प्रति टन		Rs. 225/- प्रति टन Rs. 150/- प्रति टन Rs. 65/- प्रति टन Rs. 25/- प्रति टन	
14	लौह अयस्क (क) Fe(Min.) का 45% हेमेटाइट अयस्क (ख) Fe (Min.) का 35% हेमेटाइट सिलिसिडयस अयस्क (ग) Fe (Min.) का 15% मेगनटाइट अयस्क (घ) 40% या कम Fe अंतर्विष्ट करने वाला निम्न श्रेणी अयस्क के धातु शोधन और /या सॉड्रण द्वारा तैयार सॉद्र		13.5% 9 % 9 % 3%		15% 9 % 9% 3%
15	कायानाइट		11%		12%
16	सीसा: (क) उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु (ख) उत्पादित सांद्रण में अंतर्विष्ट सीसा धातु		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु कीमत का 7.59% उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु कीमत का 12.95%		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु कीमत का 8.5% उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु कीमत का 14.5%
17	चुना पत्थर (क) एल डी श्रेणी (1.5 प्रतिशत सिलिका अंश से कम) (ख) अन्य	81/- रु0 प्रति टन 72/- रु0 प्रति टन		90/- रु0 प्रति टन 80/- रु0 प्रति टन	

18	लाइमशैल	72/- रु0 प्रति टन		80/- रु0 प्रति टन	
19	मैग्नेसाइट		3%		3%
20	मैगनीज अयस्क (क) सभी श्रेणी का अयस्क (ख) साद्रण		4.5% 1.55%		5.0% 1.7%
21	मार्ल	54/- रु. प्रति टन		60/- रु. प्रति टन	
22	मोनोजाइट	112/- रु. प्रति टन		125/- रु. प्रति टन	
23	निकेल		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट निकेल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम निकेल धातु कीमत का 0.11 %		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट निकेल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम निकेल धातु कीमत का 0.12 %
24	पलाईट		11 %		12%
25	पाइराइट		2%		2%
26	रुबी		9%		10%
27	सेनेलाइट		11%		12%
28	सिलिमेनाइट		2.5%		2.5%
29	चांदी: (क) सह उत्पाद (ख) प्राथमिक चांदी		वास्तविक रूप से उत्पादित सह-उत्पाद चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम का 6.5% उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम चांदी धातु कीमत का 4.5%		वास्तविक रूप से उत्पादित सह-उत्पाद चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम का 7% उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम चांदी धातु कीमत का 5.0%
30	टिन		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम टिन धातु कीमत का 6.7%		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम टिन धातु कीमत का 7.5%
31	टंगस्टन	अयस्क के प्रति टन में अंतर्विष्ट WO ₃ का 18/- रु0 प्रति इकाई प्रतिशत और आनुपातिक आधार पर		अयस्क के प्रति टन में अंतर्विष्ट WO ₃ का 20/- रु0 प्रति इकाई प्रतिशत और आनुपातिक आधार पर	
32.	यूरेनियम		मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त वार्षिक प्रतिकर रकम का 1.8% परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उपबंधित आंकड़े के आधार पर प्रभाजित किया जाए।		मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त वार्षिक प्रतिकर रकम का 2.0% परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उपबंधित आंकड़े के आधार पर प्रभाजित किया जाए।
33	वैनेडियम		18%		20%

34	वर्मीकुलाईट		4.5%		5%
35	बोलास्टोनाइट		13.5%		15%
36	जिक		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जिक धातु पर मूल्यानुसार प्रभार्य आधार पर लंदन धातु विनिमय जिक धातु मूल्य का 8.49% उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जिक धातु पर मूल्यानुसार प्रभार्य आधार पर लंदन धातु विनिमय जिक धातु मूल्य का 8.93%		उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जिक धातु पर मूल्यानुसार प्रभार्य आधार पर लंदन धातु विनिमय जिक धातु मूल्य का 9.5% उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जिक धातु पर मूल्यानुसार प्रभार्य आधार पर लंदन धातु विनिमय जिक धातु मूल्य का 10%
37	सभी अन्य खनिज, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं		मूल्यानुसार आधार पर विक्रय मूल्य का 11%		मूल्यानुसार आधार पर विक्रय मूल्य का 12%
38	कोयला में लिग्नाइट भी है	*	*	*	*
39	भराई हेतु रेत	**	**	**	**

1. *भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के शुद्धिपत्र संख्या सा.का.नि. 525(अ) तारीख 14 जून, 2012 के साथ पठित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 349(अ) तारीख 10 मई, 2012 द्वारा यथा पुनरीक्षित लिग्नाइट सहित कोयले के संबंध में क्रम सं. 38 पर मद के संबंध में स्वामिस्व की दर कोयला मंत्रालय द्वारा पृथक् अधिसूचना में माध्यम से पुनरीक्षित होने तक प्रवृत्त रहेगी।
2. **अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1997 द्वारा पुनरीक्षित भराई के लिए रेत के संबंध में क्रम सं. 39 पर मद के संबंध में स्वामिस्व की दर कोयला मंत्रालय द्वारा पृथक् अधिसूचना में माध्यम से पुनरीक्षित होने तक प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 9/1/2018-एम.वी.]

बिपुल पाठक, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1967 की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा पहले संशोधन किया गया था :

1. सा.का.नि. 175(अ), तारीख 31 मार्च, 1975
2. सा.का.नि. 407(अ), तारीख 14 जुलाई, 1975
3. सा.का.नि. 584(अ), तारीख 13 दिसंबर, 1975
4. सा.का.नि. 321(अ), तारीख 12 जून, 1978
5. सा.का.नि. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 1979
6. सा.का.नि. 67(अ), तारीख 13 फरवरी, 1979
7. सा.का.नि. 63(अ), तारीख 12 फरवरी, 1981
8. सा.का.नि. 449(अ), तारीख 23 जुलाई, 1981
9. सा.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987
10. सा.का.नि. 856(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 1987
11. सा.का.नि. 516(अ), तारीख 1 अगस्त, 1991
12. सा.का.नि. 100(अ), तारीख 17 फरवरी, 1992
13. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 1994

14. सा.का.नि. 27(अ), तारीख 13 जनवरी, 1995
15. सा.का.नि. 214(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997
16. सा.का.नि. 713(अ), तारीख 12 सितंबर, 2000
17. सा.का.नि. 187(अ), तारीख 15 मार्च, 2001
18. सा.का.नि. 572(अ), तारीख 16 अगस्त, 2002
19. सा.का.नि. 677(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2004
20. सा.का.नि. 522(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007
21. सा.का.नि. 96(अ), तारीख 13 फरवरी, 2009
22. सा.का.नि. 574(अ), तारीख 13 अगस्त, 2009
23. सा.का.नि. 349(अ), तारीख 10 मई, 2012
24. सा.का.नि. 630(अ), तारीख 1 सितंबर, 2014

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2019

G.S.R. 621(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Second Schedule of the said Act, namely:-

2. In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SECOND SCHEDULE

(See section 9)

RATES OF ROYALTY IN RESPECT OF MINERALS

Sl. No.	Name of mineral with grade	In Rs. per tonne (where applicable for auctioned mines)	Advalorem in percentage of average sale price except where otherwise stated (for auctioned mines)	In Rs. per tonne (where applicable for mines allotted without auction)	Advalorem in percentage of average sale price except where otherwise stated (for mines allotted without auction)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Apatite and Rock Phosphate (i) Apatite (ii) Rock Phosphate (a) Above 25% P ₂ O ₅ (b) Upto 25% P ₂ O ₅		4.5% 11.5% 5.5%		5% 12.5% 6%
2	Asbestos (a) Chrysotile (b) Amphibole	Rs. 786/- per tonne	13.5%	Rs. 880/- per tonne	15%

3	Bauxite (i) Bauxite dispatched for use in alumina and aluminium metal extraction (ii) Bauxite dispatched for use other than alumina and aluminium metal extraction		0.54% of London Metal Exchange Aluminium metal price chargeable on the contained aluminium metal in ore 22.5%		0.60% of London Metal Exchange Aluminium metal price chargeable on the contained aluminium metal in ore 25%
4	Brown Ilmenite (Leucoxene) Ilmenite, Rutile and Zircon		2.0%		2.0%
5	Cadmium		13.5%		15%
6	Chromite		13.5%		15%
7	Columbite-tantalite		9.0%		10%
8	Copper		4.13% of London Metal Exchange Copper metal price chargeable on the contained copper metal in ore produced		4.62% of London Metal Exchange Copper metal price chargeable on the contained copper metal in ore produced
9	Diamond (a) Gem variety (b) Industrial Variety		10.5% of Average sale price on ad valorem basis 10.5% of the average sale price on ad valorem basis		11.5% of Average sale price on ad valorem basis 11.5% of the average sale price on ad valorem basis
10	Fluorspar (also called fluorite)		7.5%		8%
11	Garnet (a) Abrasive (b) Gem		4% 9.0%		4% 10%
12	Gold (a) Primary (b) By-product gold		3.58 % of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as London Price) chargeable on the gold metal in ore produced. 2.95% of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as London Price) chargeable on the by-product gold metal actually produced		4% of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as London Price) chargeable on the gold metal in ore produced. 3.3% of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as London Price) chargeable on the by-product gold metal actually produced
13	Graphite (a) With 80% or more fixed carbon	Rs. 201/- per tonne		Rs. 225/- per tonne	

	(b) With 40% or more fixed carbon but less than 80% fixed carbon (c) With 20% or more fixed carbon but less than 40% fixed carbon (d) With less than 20% fixed carbon	Rs. 134/- per tonne Rs. 59/- per tonne Rs. 23/- per tonne		Rs. 150/- per tonne Rs. 65/- per tonne Rs. 25/- per tonne	
14	Iron Ore (a) Hematite Ore-45% Fe (Min.) (b) Hematite Siliceous Ore-35% Fe (Min.) (c) Magnetite Ore – 15% Fe (Min.) (d) Concentrate prepared by beneficiation and /or concentration of low grade ore containing 40% Fe or less		13.5% 9 % 9 % 3%		15% 9 % 9% 3%
15	Kyanite		11%		12%
16	Lead: (a) Contained lead metal in ore produced (b) Contained lead metal in concentrate produced		7.59% of London Metal Exchange Lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced 12.95% of London Metal Exchange Lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced		8.5% of London Metal Exchange Lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced 14.5% of London Metal Exchange Lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced
17	Limestone (a) L.D. Grade (less than 1.5 percent silica content) (b) Others	Rs. 81/- per tonne Rs. 72/- per tonne		Rs. 90/- per tonne Rs. 80/- per tonne	
18	Limeshell	Rs. 72/- per tonne		Rs. 80/- per tonne	
19	Magnesite		3%		3%
20	Manganese Ore (a) Ore of all grade (b) Concentrates		4.5% 1.55%		5.0% 1.7%
21	Marl	Rs. 54/- per tonne		Rs. 60/- per tonne	
22	Monazite	Rs. 112/- per tonne		Rs. 125/- per tonne	
23	Nickel		0.11 % of London Metal Exchange Nickel metal price chargeable on the contained nickel metal in ore produced		0.12 % of London Metal Exchange Nickel metal price chargeable on the contained nickel metal in ore produced
24	Perlite		11 %		12%
25	Pyrites		2%		2%
26	Ruby		9%		10%

27	Selenite		11%		12%
28	Sillimanite		2.5%		2.5%
29	Silver:				
	(a) By-product		6.5% of London Metal Exchange price chargeable on by-product silver metal actually produced.		7% of London Metal Exchange price chargeable on by-product silver metal actually produced.
	(b) Primary Silver		4.5% of London Metal Exchange Silver metal price chargeable on the contained silver metal in ore produced.		5.0% of London Metal Exchange Silver metal price chargeable on the contained silver metal in ore produced
30	Tin		6.7% of London Metal Exchange Tin metal price chargeable on the contained tin metal in ore produced		7.5% of London Metal Exchange Tin metal price chargeable on the contained tin metal in ore produced
31	Tungsten	Rs.18/- per unit percent of contained WO ₃ per tonne of ore and on pro rata basis.		Rs.20/- per unit percent of contained WO ₃ per tonne of ore and on pro rata basis.	
32	Uranium		1.8% of annual compensation amount received by M/s. Uranium Corporation of India Limited, to be apportioned among the States on the basis of data provided by the Department of Atomic Energy		2.0% of annual compensation amount received by M/s. Uranium Corporation of India Limited, to be apportioned among the States on the basis of data provided by the Department of Atomic
33	Vanadium		18%		20%
34	Vermiculite		4.5%		5%
35	Wollastonite		13.5%		15%
36	Zinc		8.49% of London Metal Exchange Zinc metal price on ad valorem basis chargeable on contained zinc metal in ore produced 8.93 % of London Metal Exchange Zinc metal price on ad valorem basis chargeable on contained zinc metal in concentrate produced		9.5% of London Metal Exchange Zinc metal price on ad valorem basis chargeable on contained zinc metal in ore produced 10% of London Metal Exchange Zinc metal price on ad valorem basis chargeable on contained zinc metal in concentrate produced
37	All other minerals not herein before specified		11% of the sale price on ad valorem basis		12% of the sale price on ad valorem basis
38	Coal including lignite	*	*	*	*
39	Sand for stowing	**	**	**	**

1. *Rates of royalty in respect of item at Sl. No. 38 relating to coal including lignite as revised vide notification number G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2012 read with vide corrigendum number G.S.R. 525(E), dated the 14th June, 2012 of the Government of India in the Ministry of Coal shall remain in force until revised through a separate notification by the Ministry of Coal.
2. **Rates of royalty in respect of item at Sl. No.39 relating to Sand for stowing revised vide notification number G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997, shall remain in force until revised through a separate notification by the Ministry of Coal”.

[F. No. 9/1/2018-M.V]

BIPUL PATHAK, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier vide notification numbers:

1. No. G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975
2. No. G.S.R. 407(E), dated the 14th July, 1975
3. No. G.S.R. 584(E), dated the 13th December, 1975
4. No. G.S.R. 321(E), dated the 12th June, 1978
5. No. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1979
6. No. G.S.R. 67(E), dated the 13th February, 1979
7. No. G.S.R. 63(E), dated the 12th February, 1981
8. No. G.S.R. 449(E), dated the 23rd July, 1981
9. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987
10. No. G.S.R. 856(E), dated the 14th October, 1987
11. No. G.S.R. 516(E), dated the 1st August, 1991
12. No. G.S.R. 100(E), dated the 17th February, 1992
13. No. G.S.R. 748(E), dated the 11th October, 1994
14. No. G.S.R. 27(E), dated the 13th January, 1995
15. No. G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997
16. No. G.S.R. 713(E), dated the 12th September, 2000
17. No. G.S.R. 187(E), dated the 15th March, 2001
18. No. G.S.R. 572(E), dated the 16th August, 2002
19. No. G.S.R. 677(E), dated the 14th October, 2004
20. No. G.S.R. 522(E), dated the 1st August, 2007
21. No. G.S.R. 96(E), dated the 13th February, 2009
22. No. G.S.R. 574(E), dated the 13th August, 2009
23. No. G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2012
24. No. G.S.R.630(E), dated the 1st September, 2014

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2019

सा.का.नि. 622(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 क की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में, तीसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को रखी जाएगी, अर्थात् :-

“तीसरी अनुसूची**(धारा 9 क देखें) अनिवार्य भाटक की दरें**

अनिवार्य भाटक के प्रभार्य की धारणा खान के मामलों में लागू नहीं होंगी, जो नीलामी तंत्र के माध्यम से दी जाती हैं। अनिवार्य भाटक के लिए निम्नलिखित दरें और संरचना उन खानों के लिए लागू होगी, जिन्हें नीलामी मार्ग के सिवाय अन्य नाम दिए गए हैं :-

1. कम मूल्य के खनिज (रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वार्षिक में)

पट्टे के चौथे वर्ष से	पट्टे के 5 वें और 6 वें वर्ष से	पट्टे के 7 वें वर्ष से
800	2000	4000

2. मध्यम मूल्य के खनिजों के मामले में उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दर का दो गुना ।
 3. उच्च मूल्य के खनिजों के लिए प्रदत्त पट्टे के मामले में उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दर का तीन गुना ।
 4. बहुमूल्य धातुओं और पत्थर के लिए प्रदत्त पट्टे के मामले में उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दर का चार गुना ।

टिप्पण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए: -

- (क) "बहुमूल्य धातु और रत्न" से स्वर्ण, चांदी, हीरा, माणिक, नीलम और पन्ना अभिप्रेत है;
 (ख). "उच्च मूल्य के खनिज" कम मूल्य के रत्नों (एगेट, जेम,गार्नेट), कोरंडम तांबा, सीसा, जस्ता और एस्बेस्टोस (क्राइसोटाइल किस्म) अभिप्रेत है;
 (ग). "मध्यम मूल्य के खनिज" से क्रोमाइट, मैंगनीज अयस्क, केनाइट, सिलिमेनाइट, वर्मीक्यूलाइट, मैग्नेसाइट, वोलास्टोनाइट, पेल्लाइट, डायस्पोर, एपेटाइट, रॉक फॉस्फेट, फ्लोराइट (फ्लोरास्फार), बेराइट्स, और लौह अयस्क अभिप्रेत है;
 (घ). "कम मूल्य वाले खनिज" से बहुमूल्य धातुओं और रत्नों के सिवाय खनिज, उच्च मूल्य के खनिज और मध्यम मूल्य के खनिज अभिप्रेत है।

[फा. सं. 9/1/2018-एमवी]

विपुल पाठक, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा पहले संशोधन किए गए थे :

1. सं. सा.का.नि..... 458(अ) तारीख 5 मई, 1987 ।
2. सं. सा.का.नि..... 856(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 1987 ।
3. सं. सा.का.नि..... 214(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1997 ।
4. सं. सा.का.नि..... 714(अ) तारीख 12 सितंबर, 2000 ।
5. सं. सा.का.नि..... 678(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2004 ।
6. सं. सा.का.नि..... 575(अ) तारीख 13 अगस्त, 2009 ।
7. सं. सा.का.नि..... 631(अ) तारीख 1 सितंबर, 2014 ।

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2019

G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 9A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendments to further amend the Third Schedule of the said Act, namely:-

2. In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Third Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“THIRD SCHEDULE

(See section 9A) Rates of Dead Rent

Concept of charging of dead rent shall not be applicable in cases of mines which are granted through auction mechanism. The following rates and structure for dead rent shall be applicable for the mines which are granted other than auction route, namely:-

1. Low value minerals:

(In Rs. Per Hectare Per Annum)

From 4th Year of Lease	5th and 6th Year of Lease	7th Year of lease
800	2000	4000

2. Two times the rate specified in paragraph 1 above in case of medium value minerals.

3. Three times the rate specified in paragraph 1 above in case of lease granted for high value minerals.

4. Four times the rate specified in paragraph 1 above in case of lease granted for precious metals and stone.

Note : For the purpose of this notification:-

- (a) “precious metals and stones” means gold, silver, diamond, ruby, sapphire and emerald;
- (b) “high value minerals” means semi-precious stones (agate, gem garnet), corundum, copper, lead, zinc, and asbestos (chrysotile variety);
- (c) “medium value minerals” means chromite, manganese ore, kyanite, sillimanite, vermiculite, magnesite, wollastonite, perlite, diaspore, apatite, rock phosphate, fluorite (fluorspar), barytes, and iron ore;
- (d) “low value minerals” means the minerals other than precious metals and stones, high value minerals and medium value minerals”.

[F. No. 9/1/2018-M.V]

BIPUL PATHAK, Jt. Secy.

Note : Third Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier *vide* notification numbers:

1. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987.
2. No. G.S.R. 856(E), dated the 14th October, 1987.
3. No. G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997.
4. No. G.S.R. 714(E), dated the 12th September, 2000.
5. No. G.S.R. 678(E), dated the 14th October, 2004.
6. No. G.S.R. 575(E), dated the 13th August, 2009.
7. No. G.S.R. 631(E), dated the 1st September, 2014.